

OWNER'S MANUAL

WASHING MACHINE

Please read this manual carefully before operating washing machine and retain it for future reference

P1155S*	P9055S*	P7535S*	P7010N*
P1145S*	P9041S*	P7525S*	P7010R*
P1055S*	P9040R*	P7520N*	P6510N*
P1050S*	P8535S*	P7515S*	P6001R*
P1045S*	P8035S*	P7025S*	
P1040S*	P8030S*	P7020N*	
P9545S*	P7530S*	P7015S*	



MFL68505412
Rev.01_150421

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

CONTENTS / विषय-सूची

	Page No.
IMPORTANT INSTRUCTIONS/महत्वपूर्ण निर्देश	3
SAFETY MEASURE/सुरक्षा उपाय	4
INSTALLATION/मशीन स्थापना	5
PARTS IDENTIFICATION/पुर्जों की पहचान	6~7
PREPARATION BEFORE WASHING/धुलाई से पहले की तैयारी	8
HOW TO WASH/धुलाई का तरीका	9
HOW TO RINSE/खंगालने (रिन्स) का तरीका	10
HOW TO SPIN/स्पिन का तरीका	11
CARE AND MAINTENANCE/देखभाल और रखरखाव	12~13
TROUBLESHOOTING GUIDE/समस्या निवारण निर्देश	14
Disposal of your old appliance / अपने पुराने उपकरण का निपटान	14
SPECIFICATIONS/विशिष्ट विवरण	15
REFERENCE/संदर्भ	16
ENERGY SAVING GUIDE / ऊर्जा बचत गाइड	17

This appliance is not intended for use by persons (Including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a persons responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

यह उपकरण कम शारीरिक संवेदी या मानसिक क्षमता, या अनुभव की कमी वाले व्यक्तियों (बच्चों सहित) द्वारा उपयोग करने के लिए नहीं है, जब तक कि उनकी जवाबदेह किसी व्यक्ति द्वारा मशीन के संचालन सम्बन्धी निर्देश ना दिया जाए और बच्चों पर निगरानी रखनी चाहिए कि वे मशीन के साथ ना खेलें।

IMPORTANT INSTRUCTIONS / महत्वपूर्ण निर्देश

1. Before operating machine read the Instruction manual carefully.
मशीन चलाने से पहले निर्देश पुस्तिका को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
2. Always keep the machine on the floor level.
मशीन को हमेशा समतल सतह पर ही रखें।
3. Place the machine on flat & firm floor.
मशीन को कोई ठोस और समतल जगह पर रखें।
4. When not in use, take power cord out from power socket-outlet.
उपयोग में नहीं होने पर पावर सॉकेट-आउटलेट से पावर कॉर्ड को बाहर निकालें।
5. During washing spinning & drain, check that drain hose is lowered.
मशीन के वाशिंग स्पिनिंग और पानी बाहर निकलने के दौरान जाँच कर लें कि ड्रेन होज नीचे है।
6. Don't touch cloth while running of cycle.
मशीन चलते समय कपड़े को ना छुयें।
7. Before putting clothes in the Wash Tub, check the pockets thoroughly for Coins, Keys and other objects.
कपड़ों को वाँश टब में डालने से पहले जेबों की अच्छी तरह जाँच कर लें कि उनमें सिक्के, चाबियों या अन्य वस्तुएँ तो नहीं हैं।
8. Transfer the clothes from Wash Tub to Spin Dryer Basket one by one.
वाँश टब से कपड़े स्पिन ड्रायर बास्केट में एक-एक करके स्थानान्तरित करें।
9. In case you notice excessive vibration or abnormal noise during spinning, immediately open the Spin Dryer Cover and rearrange the laundry evenly.
यदि आपको दिखाई दे कि स्पिनिंग के समय अत्यधिक कम्पन या असामान्य आवाज हो रही है तो तुरन्त ही स्पिन ड्रायर कवर को खोल दें और दुबारा से कपड़ों को बराबर से सैट करें।
10. Rat away is a way to reduce damage caused by specific categories of Rats and may not be effective on all rodents. Actual results may vary depending on actual product use conditions.
रैट अवे (Rat away) एक विशिष्ट प्रजातियों के चुहों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने का तरीका है। यह चुहों की सभी प्रजातियों पर प्रभावी नहीं है। वास्तविक परिणाम अलग हो सकते हैं तथा यह उपयोग स्थितियों पर निर्भर करेगा।
11. The machine has mobility function by manual intervention, Care to be taken to avoid any body parts coming under wheels.
घकेलने पर मशीन में चलने का प्रावधान है, इसलिए कृपया ध्यान रखें कि शरीर का कोई अंग पहियों के नीचे ना आये।
12. In case of any doubt contact the nearest service center or Dealer.
यदि आपको कोई सन्देह है तो नजदीकी सर्विस सैन्टर या डीलर से सम्पर्क करें।

Take care of following signs to avoid any harm to machine & operator

मशीन और ऑपरेटर को किसी भी नुकसान से बचने के लिए निम्नलिखित संकेतों का ध्यान रखें



: This is a warning sign specifying user's applications which might be dangerous.
यह एक चेतावनी का संकेत है जिसमें उपयोगकर्ता की कार्यपद्धतियों जो खतरनाक हो सकती हैं, का विवरण दिया गया है।



: This is a sign specifying 'Strictly Forbidden' applications.
यह एक संकेत है जिसमें 'सख्ती से वर्जित' कार्यपद्धतियों का विवरण दिया गया है।



WARNING : Failure to comply with the instructions under this sign may result in major physical injuries or death.
इस संकेत के तहत निर्देशों के पालन करने में विफलता से प्रमुख शारीरिक चोट या मौत हो सकती है।



CAUTION : Failure to comply with the instructions under this sign may result in minor physical injuries or damages to the product.
इस संकेत के तहत निर्देशों के पालन करने में विफलता से मामूली शारीरिक चोट या उत्पाद में नुकसान हो सकता है।

- This Washing Machine is intended to be used in household and similar applications only.
इस वाशिंग मशीन का उपयोग केवल घरेलू और इसी तरह के अनुप्रयोगों में किया जाना चाहिए।

Disclaimer: The user should follow the instructions as per the owner's manual to avoid any malfunctioning of the product, accident or damage. The manufacturer is not liable for any accident or consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly from the product. The manufacturer's liability is limited only to the extent of repair or replacement of the product as per the terms and condition mentioned elsewhere in the document.

डिस्क्लेमर: उपयोगकर्ता को उत्पाद की किसी भी खराबी, दुर्घटना या क्षति से बचने के लिए ऑनर मैनुअल के अनुसार निर्देशों का पालन करना चाहिए। किसी भी दुर्घटना या परिणामी देयता, सम्पत्ति या जीवन को उत्पाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए निर्माता उत्तरदायी नहीं है। निर्माता की देयता केवल दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के अनुसार उत्पाद की मरम्मत या प्रतिस्थापन के सीमा तक सीमित है।

⚠ WARNING / चेतावनी

⚠ In Operation

- Do not insert the hand inside the spin dryer basket while the machine is in operation. Do not let children climb on the machine or climb into the tub. Injury may occur.



⚠ चलाने में

- चलती मशीन में स्पिन ड्रायर बास्केट के भीतर हाथ न डालें। बच्चों को मशीन के ऊपर या टब में न चढ़ने दें। इससे चोट लग सकती है।

⚠ Switch Area

- Avoid watering on the control panel and power socket-outlet. It may cause electric shock or fire.



⚠ रिच्व का स्थान

- कंट्रोल पैनल और पावर सोकेट—आउटलेट पर पानी डालने से बचें। इससे बिजली का झटका लग सकता है या आग भी लग सकती है।

⚠ Installation

- Install the washing machine on a horizontal support. Otherwise, it may cause vibration and noise.




⚠ मशीन लगाना

- वाशिंग मशीन को समतल जगह पर रखें। अन्यथा उसमें कंपन और शोर हो सकता है।

⚠ Installation Area

- Avoid area exposed to high humidity, snow, rain or direct sunlight. It may cause electric shock or deformation in the product.




Machine to be used without Packing Base मशीन को पैकिंग बेसिन बेस के इस्तेमाल करें।

⚠ मशीन रखने का स्थान

- मशीन को ऐसी जगह न रखें जहाँ नमी ज्यादा हो या बर्फ या बर्फ या सीधी धूप आती हो। इससे बिजली का झटका या उत्पाद में विकृति हो सकती है।

⚠ Electric Outlet

- Do not use adapter or extension cord to supply power to washing machine. It may cause fire.




⚠ बिजली का प्लग लगाने का स्थान

- मशीन की बिजली की आपूर्ति के लिए एडाप्टर या एक्सटेंशन काबर्ड का उपयोग न करें। इससे आग लग सकती है।

⚠ Heat

- Do not use electric heater, candle light, cigarette, bug smoker etc. near the machine. It may ignite or deform plastic part.



⚠ ताप

- मशीन के पास बिजली का हीटर, मोमबत्ती, जलती हुई सिगरेट या कीड़े भगाने के लिए धुआं करने वाला उपकरण आदि न रखें। इससे चिगरी भड़क सकती है और प्लास्टिक के पुर्जों की आकृति भी बिगड़ सकती है।

⚠ Power Cord

- If the power supply cord is damaged, it must only be replaced by a repair shop appointed by the manufacturer because special purpose tools are required.

⚠ बिजली का तार

- अगर मशीन से जुड़ा बिजली का तार (पावर कॉर्ड) खराब हो जाए तो निर्माता द्वारा नियुक्त दुकान से ही बदलवायें क्योंकि उसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है।
- Do not touch the power supply cord with your wet hand.
- बिजली के तार को नीले हाथ से न छुएँ।
- Plug out the power supply cord, when cleaning or not using the washing machine for a long time.
- मशीन को साफ करने से पहले या लम्बे समय तक इस्तेमाल न करने पर बिजली के तार को बाहर निकाल दें।

It may cause electric shock or fire / इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

⚠ Caution / सावधान

⚠ Hot Water

- Avoid using hot water over 50°C. It may deform plastic parts or cause malfunction.



⚠ गर्म पानी

- 50° से 0 से अधिक गर्म पानी का उपयोग न करें। इससे प्लास्टिक के हिस्सों का रूप बिगड़ सकता है या खराबी भी हो सकती है।

⚠ Drain Hose

- The level of the drain should be slightly lower than the lowest part of the washing machine in order to ensure proper and complete drainage and to avoid falling of overflowing water on electrical parts.



⚠ ड्रेन हॉज

- निकास नली वाशिंग के सबसे निचले हिस्से से कुछ नीची होनी चाहिए, ताकि पानी सही ढंग से पूरी तरह निकल सके और विद्युत भागों पर फालतू बहते हुए पानी को गिरने से रोका जा सके। It may cause electric shock.

इससे विद्युत आघात लग सकता है।

⚠ Volatile Material

- Do not use volatile material such as Benzene, Gasoline bug killer. Do not leave strong alkaline substance such as bleach inside the tub. It may damage plastic surface and rubber parts.



⚠ ज्वलनशील (वाष्पशील पदार्थ)

- बैन्जीन, गैसोलीन या कीटनाशक जैसे ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग न करें। ब्लीच जैसे तेज क्षारीय पदार्थों टब में न छोड़ें। इनसे प्लास्टिक की सतह और रबड़ वाले हिस्सों को नुकसान हो सकता है।

⚠ Water Level

- Washing Machine is provided with different water level selection options for washing / Rinsing process such as, "L" (Low), "M" (Medium), "H" (High). "H" represents the Maximum water level available.



Fill the adequate water quantity as per the laundry load so that Clothes can absorb required amount of water & water will not be short.

⚠ जल स्तर


- वाशिंग मशीन, धोने/रिंसिंग प्रक्रिया के लिए अलग-अलग जल स्तर चयन जैसे "L" (निम्न), "M" (मध्यम), "H" (उच्च), विकल्पों के साथ प्रदान की गई है। "H" अधिकतम जल-स्तर को दर्शाता है। कपड़ों के लोड के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी भर लें, ताकि कपड़े पानी की आवश्यक मात्रा सोख सकें और पानी की मात्रा कम न पड़े।

INSTALLATION / मशीन स्थापना

Connecting the power plug / बिजली का प्लग लगाना

- Insert the power plug into the power socket-outlet with proper earthing.

पावर प्लग को उचित अर्थिंग के साथ वाले पावर सॉकेट-आउटलेट में लगा दें।



Installation area / मशीन लगाने का स्थान


- Select flat and firm floor.
कोई ठोस, समतल जगह चुन लें।
- Incorrect installation may cause severe noise and break down.
गलत ढंग से लगाने पर भारी कम्पन और खराबी हो सकती है।



- The base openings must not be obstructed by carpeting when the washing machine is installed on a carpeted floor.
अगर फर्श पर कारलीन बिछा हो तो वाशिंग मशीन के नीचे का खुला हिस्सा कारलीन से बंद न होने पाये।

- Maintain more than 15 cm gap between the side of drain hose and the wall.

निकासी पाइप और दीवार के बीच कम से कम 15 से०मी० की दूरी रखें।



Drain Hose Installation / निकासी पाइप लगाना

Drain Hose / निकासी पाइप

1. Fix the snap ring to the drain hose.
स्नैप रिंग को निकासी पाइप में लगाएँ।

Snap Ring / स्नैप रिंग

2. Align the drain hose with drain outlet.
निकासी पाइप को निकासी द्वार के सीध में लाएँ।




3. Push the hose towards the body of the washing machine & release the snap ring.
पाइप को मशीन की बाँड़ी की ओर दबाएँ और स्नैप रिंग को छोड़ दें।

Notes / टिप्पणी :

- Be sure to re-route the drain hose so that it is not kinked or has sharp bends which will prevent proper drainage.
निकास नली को सीधा कर लें ताकि उसमें टूटन या तीखे मोड़ न रह जाएँ। इनसे सही निकासी में रुकावट आ सकती है।

Use only new hose set provided with the machine.

हमेशा मशीन के साथ दी गई नई नली का ही उपयोग करें।



⚠ Warning/ चेतावनी

- Packaging materials (such as plastic bags and thermocol) should be kept away from children. सामी पैकेजिंग (प्लास्टिक बैग और थर्मोकॉल इत्यादि) को बच्चों से दूर रखें।


The packaging material can cause suffocation./ पैकेजिंग सामग्री की वजह से घुटन हो सकती है।

PARTS IDENTIFICATION / पुर्जों की पहचान

Accessories*/ अन्य उपकरण



* Accessories may be different according to the model.



- (Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)
(उपरोक्त प्रदर्शित आकृति आपके मॉडल से अलग हो सकती है कृपया इससे मिलान न करें। यह सिर्फ योजनाबद्ध चित्र है।)
- (Due to continuous improvements at LG, specification of washing machine are subject to change without prior notice)
(LG में लगातार परिवर्तन किये जाने के कारण मशीन की विशिष्टताओं में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है)

Wash Timer / वॉश टाइमर

The wash timer can be used for SOAK, WASH and RINSE operations. Following combinations can be selected / वॉश टाइमर को सोक, वॉश और रिन्स क्रियाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित संयोग या संसर्ग चुने जा सकते हैं।

- a) Soak + Wash : Select the desired soak time by setting the timer between 15-35/40 min Then total wash time will be selected soak time + 15 min of wash time / सोक + वॉश : टाइमर को 15-35/40 मिनट के मध्य सैट करके इच्छित सोक टाइम को चुनें। इससे कुल वॉश टाइम निर्धारित हो जायेगा – सोक टाइम + वॉश टाइम की 15 मिनट।

35 min Soak Timer : 20 min Soak + 15 min Wash, 40 min Soak Timer : 25 min Soak + 15 min Wash
35 मिनट सोक टाइमर : 20 मिनट सोक + 15 मिनट वॉश, 40 मिनट सोक टाइमर : 25 मिनट सोक + 15 मिनट वॉश

- b) Wash/Rinse : Any Wash/Rinse time 1-15 min can be selected by setting the timer between 1-15 min / वॉश / रिन्स : टाइमर को 1-15 मिनट के मध्य सैट करके कोई भी वॉश / रिन्स टाइम 1-15 मिनट के मध्य निर्धारित किया जा सकता है।

Washing will take place for the set period, then machine stops automatically / निर्धारित अवधि के लिए धुलाई चालू हो जायेगी और फिर मशीन स्वतः ही बन्द हो जायेगी।

- c) In Soak option, machine operates for 1-2 min & remains off for 5 min This cycle continues for selected soak time / एच्छिक सोक में, मशीन 1-2 मिनट चलती है और 5 मिनट बन्द रहती है। यह क्रम निर्धारित सोक टाइम तक चालू रहता है।

* Soak Function

Soaking is provided for better cleaning of clothes as detergent water goes to inner pores of clothes resulting dirt removal in better way.


सोक सुविधा कपड़ों की उत्तम सफाई के लिए दी गई है क्योंकि डिटजेंट का पानी कपड़ों के आन्तरिक छिद्रों में प्रविष्ट होकर गन्दगी को अच्छी तरह बाहर निकाल देता है।

For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 15.

अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएं और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 15 पर दी गई तालिका "A" देखें।

PARTS IDENTIFICATION / पुर्जों की पहचान

Control Panel / कन्ट्रोल पैनल



(Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)

(कृपया इस चित्र को अपने मॉडल से न मिलायें क्योंकि यह आपके मॉडल से भिन्न हो सकता है। ये केवल रेखाचित्र हैं।)

For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 15.

अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएँ और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 15 पर दी गई तालिका "A" देखें।

Description / विवरण :

1. Water Supply Inlet

Connect here with the inlet hose from the water tap to feed water to the tub.

2. Water Selector

Select "WASH" to supply water for washing and rinsing and "SPIN" for spin shower rinse.

3. Wash Timer

Select the desired time for soaking, washing or rinsing. For Wash Timer please refer Table "A" on page 15 for your purchased model.

4. Wash Selector

Set the Selector to "GENTLE", "NORMAL", "STRONG" according to kinds and quantity of the laundry.

5. Drain Selector

Select "WASH RINSE" for washing and rinsing, and "DRAIN" to drain the water from the tub.

6. Spin Timer

Select the desired time for spinning. Don't rotate the knob more than prescribed limit.

1. जल आपूर्ति का इनलेट

एब में पानी भरने के लिए पानी की नली को इनलेट हॉज से जोड़ें।

2. वॉटर सलेक्टर

धुलाई या खंगालने के लिए पानी भरने से पहले "वॉश" और स्पिन शॉवर रिस के लिए "स्पिन" पर करें।

3. वॉश टाइमर

सॉफिंग, धुलाई या खंगालने के लिए अपेक्षित समय सेट करें। आपके खरीदे गये मॉडल के वॉश टाइमर के लिए कृपया पृष्ठ 15 पर दी गई तालिका "A" देखें।

4. वॉश सलेक्टर

कपड़ों की किस और मात्रा के अनुसार सलेक्टर नोब को (जेन्टिल, नॉर्मल या स्ट्रॉंग) पर रखें।

5. ड्रेन सलेक्टर

एब का पानी निकालने के लिए नोब "ड्रेन" और धुलाई तथा खंगालने के लिए "वॉश-रिन्स" पर रखें।

6. स्पिन टाइमर

निचोड़ने (स्पिनिंग) के लिए अपेक्षित समय सलेक्टर करें। नोब को उससे आगे न घुमाएँ।


PREPARATION BEFORE WASHING / धुलाई से पहले की तैयारी

Preparation / तैयारी

- Connect the water supply hose to the water supply inlet.
पानी के पाइप को वॉटर सप्लाई इनलेट से जोड़ दें।

- Set the water selector lever to "WASH" for washing / rinsing & to "SPIN" for interim spin rinse.
"वॉश" सलेक्टर लीवर को धुलाई और खंगालने के लिए "WASH" पर और थोड़ा खंगालने के लिए "SPIN" पर रखें।

- Note : The water Selector lever should not be placed near the center (as shown in Fig. A otherwise water flows to the wash and spin tub simultaneously).
वाटर सलेक्टर लीवर को बीचोंबीच न रखें (जैसा चित्र ए में दर्शाया गया है) अन्यथा पानी वॉश और स्पिन टब दोनों में एक साथ भरेगा।



- Use new inlet hose available with machine/
मशीन के साथ दी गई नई नली का उपयोग करें।

- Connect the power cord to the electrical outlet.
बिजली के तार को साँकेट में लगा दें।

- Drain Hose / ड्रेन होज (निकास नली)

- Always keep the level of drain hose slightly lower than the lowest part of the washing machine

- निकास नली हमेशा वॉशिंग मशीन के सबसे निचले हिस्से से कुछ नीची होनी चाहिए।



(Fig. A)
(चित्र ए)

- For your convenience hang up the wash cover on the left side of the washing machine tub when not in use.
आपकी सुविधा के लिए वॉश कवर को मशीन के बायीं तरफ लटका लें, जब वह प्रयोग में न हो।

Before washing / धुलाई से पहले

- 1 Check the washing instructions labels on the clothing to be washed.
कपड़ों पर लगे धुलाई निर्देश लेबल अच्छी तरह पढ़ लें।



- 2 Don't forget to remove any objects from the pockets of the clothing. Object left in the pockets will damage the clothing or washing machine (especially cause clogging of the drain hose).
कपड़ों की जेबें खाली करना न भूलें। उनमें पड़ी चीजें वॉशिंग मशीन या कपड़ों को विकृत कर देगी। (खासकर निकासी पाइप में रुकावट हो सकती है)।



- 3 Start washing after separating an oiled or dyed laundry.
तेल अथवा रंगे हुए कपड़ों को अलग

छाँटने के बाद धुलाई शुरू करें।



HOW TO WASH / धुलाई का तरीका

- 1 Set the drain selector to "Wash + Rinse" position.
ड्रेन सलेक्टर को "Wash + Rinse" स्थिति में रखें।



DRAIN SELECTOR
ड्रेन सलेक्टर


- 2 Set the water selector to "WASH".
वॉटर सलेक्टर को "WASH" पर रखें।



WATER SELECTOR
वॉटर सलेक्टर

- 3 Open the water tap and fill water in the wash tub about halfway to the desired water level.

नल खोलकर वॉश टब में निर्धारित स्तर से करीब आधा पानी भर लें।



HOW TO WASH / धुलाई का तरीका

- 4** Put the appropriate amount of detergent and the laundry into the wash tub and add water to the required Water level.

अब वॉश टब में निश्चित मात्रा में डिटरजेंट और कपड़े डाल दें। पानी को उचित स्तर तक भर लें।


For model without detergent box

- Put the appropriate amount of detergent into detergent box and the laundry into the wash tub and add water to the required water level.

उचित मात्रा में डिटरजेंट को डिटरजेंट बाक्स में डालें एवं उचित स्तर तक पानी भर लें।

For model with detergent box

- For water level refer to Tables for Reference on page 16./ जल स्तर के लिए पृष्ठ 16 पर संदर्भ के लिए दी गई तालिका देखें।



- 5** Select the wash selector to "Gentle", "Normal", "Strong" according to kinds and quantity of the laundry.

वॉश सलेक्टर को कपड़ों की किस्म और मात्रा के हिसाब से "Gentle", "Normal" या "Strong" पर रखें।



- For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 15. अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएं और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 15 पर दी गई तालिका "A" देखें।


- 6** Set the desired wash time. अब धुलाई का समय सेट कर लें।



- Refer to TABLES for REFERENCE on page 16 for information on how to select the appropriate washing time. धुलाई का सही समय तय करने की जानकारी के लिए पृष्ठ 16 पर संदर्भ के लिए दी गई तालिका देखें।
- For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 15. अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएं और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 15 पर दी गई तालिका "A" देखें।

- 7** When washing is finished, select the drain selector to "Drain" position and drain the water out.





धुलाई के बाद "Drain Selector" को "Drain" पर कर दें और पानी निकाल दें।



HOW TO RINSE / खंगालने (रिन्स) का तरीका

Continuous water supply rinse / चलते पानी में कपड़े खंगालना (रिन्स)







- The course is to rinse while feeding water continuously / इस तरीके में कपड़े चलते पानी में खंगाले जाते हैं।

<p>1 Set the drain selector to "Wash • Rinse" position. ड्रेन सलेक्टर को "Wash • Rinse" स्थिति में रखें।</p>  <p>Wash-Rinse Drain</p>  <p>WASH Drain Selector</p>	<p>2 Put the laundry into the wash tub and open the water tap. वॉश टब में धुले हुए कपड़े भरकर नल खोल दें।</p> 	<p>3 Set the rinse time with the wash timer and feed water continuously. पानी चलता रहने दें और वॉश टाइमर से समय निश्चित कर दें।</p>  <p>Book/Wash Timer Wash Timer</p> <p>For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 15. अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएं और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 15 पर दी गई तालिका "A" देखें।</p>
--	--	--

Interim spin rinse / थोड़ा स्पिन रिन्स (रिन्स से थोड़ा खंगालना)

- Interim spin rinse prior to regular rinsing will remove sudsy water from the laundry and improve rinsing efficiency.

पूरी तरह खंगालने से पहले कपड़ों को थोड़ा स्पिन रिन्स करने से साबुन का पानी निकल जाएगा और उन्हें बेहतर ढंग से खंगाला जा सकेगा।


<p>1 After washing</p> <ul style="list-style-type: none"> Put the laundry into the spin dryer basket. Place the safety cover horizontally on the laundry. <p>धुलाई के बाद</p> <ul style="list-style-type: none"> कपड़ों को स्पिन ड्रायर बार्केट में डाल दें। सेफ्टी कवर को उन पर समतल रख दें।   <p>Safety cover सेफ्टी कवर</p>	<p>2 Set the water selector to "SPIN" & open the tap. वॉटर सलेक्टर को "SPIN" पर करके नल को खोल दें।</p>  <p>WATER SELECTOR वॉटर सलेक्टर</p>	<p>3 Supply water for about 1 minute. Adjust the water flow to prevent overflow from the wash tub. लगभग 1 मिनट तक पानी चलाएं। वाश टब से पानी के निकलने को रोकने के लिए जल प्रवाह को व्यवस्थित करें।</p> <p>4 Turn off the water supply, close the safety cover-1 and spin dryer cover. पानी की सप्लाई बन्द करके सेफ्टी कवर-1 और स्पिन ड्रायर कवर ढक दें।</p>  <p>Safety cover-1 सेफ्टी कवर-1</p>
<p>5 Set the desired spin time with the spin timer स्पिन टाइमर से समय तय कर दें।</p> 	<p>6 After spinning</p> <ul style="list-style-type: none"> Put the laundry into the wash tub and rinse स्पिनिंग के बाद कपड़ों को फिर वॉश टब में डाल कर खंगाल लें। 	

⚠ Caution / सावधान

- Do not operate the Spin with water supply ON. / स्पिन को पानी की सप्लाई चालू रखकर न चलाएं। Spin Motor may stop operation or may be damaged. / स्पिन मोटर बन्द या क्षतिग्रस्त हो सकती है।

HOW TO SPIN / स्पिन का तरीका

1. Put the laundry evenly into the spin dryer basket.
कपड़ों को बराबर फैलाकर स्पिन ड्रायर बास्केट में भर दें।
2. Put the laundry down lightly.
कपड़ों को धीरे से नीचे दबायें।
3. Place the safety cover horizontally on the top of the laundry inside the basket.
सेफ्टी कवर को बास्केट के अन्दर कपड़ों के ऊपर समतल रख दें।
4. Close the safety cover-1 and then spin dryer cover.
सेफ्टी कवर-1 और स्पिन ड्रायर कवर ढक दें।
5. Set the spin timer according to the following table.
निम्नलिखित तालिका के अनुसार स्पिन टाइमर से समय तय कर दें।



SPIN TIME GUIDE* / स्पिन समय तालिका*

Type of clothing / कपड़ों के प्रकार	Spin Time / स्पिन समय
Thin fabrics (synthetic fabrics, mixed fabrics) Sweaters / बारीक कपड़े (सिन्थेटिक, मिश्रित धागे वाले) स्वेटर	1 min / मिनट
Silk (synthetic fabrics) / सिल्क (सिन्थेटिक धागे वाले)	1~3 min / मिनट
Cotton underwear / सूती अंडरवीयर	3~5 min / मिनट
Sheets, towels / चादरें, तौलिए	5~10 min / मिनट **

- Do not drain the water out of the wash tub while the spin dryer basket is in operation. Otherwise the spin motor could be damaged.

स्पिन ड्रायर बास्केट के प्रयोग के समय वॉश टब के पानी को न निकालें, अन्यथा स्पिन मोटर के खराब होने की सम्भावना है।

- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly, and then resume spinning.
अगर स्पिन ड्रायर बास्केट का संतुलन ठीक न हो और वो जोर से हिलती हो तो स्पिनिंग रोक दें। कपड़ों को बराबर फैलाकर दोबारा शुरू करें।
- If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service.
अगर स्पिन ड्रायर कवर का ढक्कन खुलने पर बास्केट का घूमना बंद न हो तो इसका अर्थ है कि ब्रेक खराब है। मशीन का इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें और मैकेनिक बुलाएं।

IMPORTANT INSTRUCTION : For woollen clothes, spin for 1 min only for clothes protection.

महत्वपूर्ण निर्देश : ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए स्पिनिंग 1 मिनट तक ही करें।

** 10 min Spin Timer available with selected models only. For Spin Timer please refer table "A" on page - 15 for your purchased model.

10 मिनट स्पिन टाइमर केवल चुनिंदा मॉडल में ही उपलब्ध है। आपके खरीदे गये मॉडल के स्पिन टाइमर के लिए कृपया पृष्ठ 15 पर दी गई तालिका "A" देखें।

! Caution / सावधान

- Do not continue Spin over 3 consecutive cycles. After 3 consecutive spin cycles, stop spinning more than 1 hour. / स्पिन का उपयोग लगातार 3 बार से अधिक ना करें। लगातार 3 स्पिन के बाद, स्पिन को 1 घंटे से अधिक समय के लिए बन्द रखें।
Spin Motor may stop operation or may be damaged. / स्पिन मोटर बन्द या क्षतिग्रस्त हो सकती है।

AFTER FINISHING WASH / धुलाई पूरी होने के बाद




1. Remove the laundry from the spin dryer basket and close the spin dryer cover / कपड़ों को स्पिन ड्रायर बास्केट से निकालकर उसका ढक्कन बंद कर दें।
2. If there is water in the wash tub, set the drain selector to "DRAIN" in order to drain it out. / अगर वॉश टब में पानी हो तो उसे निकालने के लिए ड्रेन सेलेक्टर "ड्रेन" पर कर दें।
3. Disconnect the power cord from the electrical outlet. / बिजली का तार सॉकेट में से निकाल दें।
4. Clean the washing machine. (Refer to CARE AND MAINTENANCE on page 12~13) / वॉशिंग मशीन साफ कर दें। (इसके लिए पृष्ठ 12~13 पर देखमाल और रख-रखाव निर्देश पढ़ें)









CARE AND MAINTENANCE / देखभाल और रखरखाव

- Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance.
मशीन की देखभाल और सफाई करने से पहले बिजली का तार सॉकेट से निकाल लें।







Lint Filter* / लिंट फिल्टर*

<p>1 </p> <p>● Pull out lint filter in the shown direction. लिंट फिल्टर को दिखाई गई दिशा में बाहर खींचें।</p>	<p>2 </p> <p>● Turn the net over and rinse in water जाली के भीतरी भाग को बाहर की ओर पलटें और पानी के साथ धोकर साफ करें।</p>	<p>3 </p> <p>● Fit the filter to its original position. Press the filter until you hear a click sound. फिल्टर को उसकी वास्तविक जगह पर लगाएं। फिल्टर के मुँह को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज न सुनाई दे।</p>
---	---	--







Magic Filter* / मैजिक फिल्टर*

<p>1 </p> <p>Pull out the Magic Filter from the tub in the direction as shown in figure. चित्र में दर्शाई गई दिशा में टब से मैजिक फिल्टर को खींचें।</p>	<p>3 </p> <p>Pull out the inner filter in the direction shown in figure. चित्र में दर्शाई गई दिशा में आन्तरिक फिल्टर को खींचें।</p>	<p>5 </p> <p>Rinse the filter with water. फिल्टर को पानी में रगड़ें।</p>
<p>2 </p> <p>Open the back cover of the filter in the direction as shown in figure. चित्र में दर्शाई गई दिशा में फिल्टर के पिछले कवर को खोलें।</p>	<p>4 </p> <p>Remove lint. लिंट को हटाएं।</p>	<p>6 </p> <p>Place the filter to the original location. Push the filter until a click sound is heard. फिल्टर को उसकी मूल स्थिति में लगाएं। फिल्टर को तब तक दबाएं जब तक क्लिक की आवाज सुनाई न दे।</p>

Smart Filter* / स्मार्ट फिल्टर*

<p>1 </p> <p>Press the upper and lower part of the filter and pull forward. फिल्टर के ऊपरी और निचले हिस्से को दबाएं और आगे की ओर खींचें।</p>	<p>2 </p> <p>Remove lint and then wash out. लिंट को हटा दें और फिर धो लें।</p>	<p>3 </p> <p>Press the upper part of overflow filter down and pull forward. ओवरफ्लो फिल्टर के ऊपरी भाग को नीचे दबाएं और आगे की ओर खींचें।</p>
<p>4 </p> <p>Open the lid & remove lint and then wash out. लिट (LID) खोलें और लिंट को हटा दें और फिर धो लें।</p>	<p>5 </p> <p>Close the lid and then insert the lower part of the overflow filter into the wash tub and then press top part into original position. लिट (LID) बंद करें और फिर ओवरफ्लो फिल्टर के निचले हिस्से को बोश टब में डालें और ऊपरी हिस्से को मूल स्थिति में लाने के लिए दबाएं।</p>	<p>6 </p> <p>Place the filter to the original position. फिल्टर को मूल स्थिति में रखें।</p>

Overflow filter & Rotation filter-C* / ओवर फ्लो फिल्टर व रोटेशन फिल्टर-सी*

<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> Lift up the area (A) of the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर के (A) हिस्से को ऊपर उठाएं। Take out the rotation filter-C by pulling in direction shown. दिखाई गई दिशा में खींचकर रोटेशन फिल्टर-सी को निकाल लें। 	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> Pull the overflow filter forward from the wash tub in the direction of the arrow. ओवर फ्लो फिल्टर को तीर की दिशा में बोश टब से आगे खींच लें। 	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> Turn the net over and rinse in water. जाली को पलट कर पानी से धो लें। 
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> Use a brush or your hand to remove all of the lints which has adhered to the overflow filter. ओवर फ्लो फिल्टर में फँसी सारी गंदगी को ब्रश या हाथ से निकाल दें। 	<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> Insert the overflow filter back into the wash tub. ओवर फ्लो फिल्टर को वापस बोश टब में लगा दें। 	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> Insert the rotation filter-C back into the overflow filter. रोटेशन फिल्टर-सी को वापस ओवर फ्लो फिल्टर में लगा दें। 

- If only rotation filter-C need washing, proceed the process 1 > 3 > 6 on the upper figure.
अगर सिर्फ रोटेशन फिल्टर-सी को धोना हो तो 1 > 3 > 6 की प्रक्रिया अपनाएं।

* For Features and Specifications of your purchased model, please refer Table "A" on page 15.

अपने खरीदे गये मॉडल की विशेषताएं और विशिष्ट विवरण के लिए कृपया पृष्ठ 15 पर दी गई तालिका "A" देखें।

Washing machine / वाशिंग मशीन

- If the washing machine itself becomes dirty / अगर वाशिंग मशीन गंदी हो जाए।
- The washing machine can be cleaned with cloth soaked in mild liquid detergent. Never use abrasive cleaner or chemical Such as benzene or thinner to clean washing machine, because these materials will damage the plastic parts

वाशिंग मशीन को हल्के तरल डिजेंट में भिगोए कपड़े से साफ किया जा सकता है। वाशिंग मशीन साफ करने के लिए अपघर्षक क्लीनर या बैन्जीन या थिनर जैसे रसायनों का प्रयोग कभी न करें क्योंकि इन चीजों से प्लास्टिक पुर्जों को क्षति पहुँच सकती है।

Pulsator / पल्सेटर

- If a button or some other object gets caught in the pulsator / अगर पल्सेटर में बटन या कुछ और चीज फँस जाए।

1. Take out the pulsator cap with "-" type screw driver. (Fig. a)
पल्सेटर का ढक्कन "-" टाइप पेचकस से उठा लें।
2. Use a screwdriver to unscrew the screw in the center of the pulsator and lift the pulsator straight up in order to remove the button or other object. (Fig.b)
पल्सेटर के बीच का पेच खोल लें और पल्सेटर को सीधा ऊपर उठाकर बटन या कुछ और चीज निकाल लें।
3. Place the pulsator at its original position and tighten the screw.
पल्सेटर को उसकी मूल स्थिति में लगाकर पेच कस दें।
4. Place the pulsator cap at its original position.
पल्सेटर की कप को उसकी मूल स्थिति में लगा दें।




Fig. a



Fig. b

Detergent Box* / डिजेंट बॉक्स*

1. Pull the detergent box as shown in picture 1.
डिजेंट बॉक्स को चित्र 1 में दिखाई गई दिशा के अनुसार खींचें।
2. Press at side of detergent box and rotate downwards following the arrow direction in picture 2.
डिजेंट बॉक्स को साइड से दबाएँ और चित्र 2 में दिखाएँ गये तीर की दिशा के अनुसार नीचे की ओर घुमाएँ।
3. Clean detergent box with water.
डिजेंट बॉक्स को पानी से साफ करें।




- * For Selected models only.
केवल चयनित मॉडल के लिए।

Spin dryer basket / स्पिन ड्रायर बास्केट

- If clothing becomes trapped between the spin dryer basket and the spin tub.
अगर स्पिन ड्रायर बास्केट और स्पिन टब के बीच कपड़े फँस जाएं -

1. Take hold of the front of the safety cover-2
सेफ्टी कवर-2 के सामने का हिस्सा पकड़ें।
2. Firmly hold the tub by the other hand.
दूसरे हाथ से टब को पकड़ कर रखें।
3. Pull the safety cover-2 upward.
सेफ्टी कवर-2 को ऊपर खींच लें।
4. Remove the clothing.
कपड़ा निकाल लें।
5. Close the safety cover-2, pressing down on it so that it fits securely into the spin tub.
सेफ्टी कवर-2 को नीचे दबाकर बंद कर दें। यह स्पिन टब पर पूरी तरह फिट हो जाना चाहिए।



TROUBLESHOOTING GUIDE / समस्या निवारण निर्देश

Before Requesting Service / सेवा अनुरोध करने से पहले

Troubles / गड़बड़ी	Checking points / जाँच करें
Motor does not operate मोटर नहीं चलती	<ul style="list-style-type: none"> Is the power cord firmly plugged in? / क्या बिजली का तार ठीक से लगा है? Is a household fuse blown? / घर का फ्यूज तो नहीं उड़ा है? Is the spin timer turned to a suitable point except "OFF"? (Spin Motor) क्या स्पिन टाइमर "ऑफ" के सिवा उचित स्थान तक घूमा है? (स्पिन मोटर) Is the wash timer set to a suitable position except "OFF"? (wash motor) क्या वॉश टाइमर "ऑफ" के सिवा उचित स्थान की ओर है? (वॉश मोटर)
Spin dryer basket does not operate स्पिन ड्रायर बास्केट नहीं चलती	<ul style="list-style-type: none"> Is the spin dryer cover closed completely? / क्या स्पिन ड्रायर का ढक्कन पूरा बंद है? Are laundry (socks, etc.) falling out of the spin dryer basket and clinging to the axle? क्या कपड़े (सॉक्स इत्यादि) स्पिन ड्रायर बास्केट से बाहर गिर कर धुरी से तो नहीं चिपट रहे?
Water does not enter in washer वॉशर में पानी नहीं आता	<ul style="list-style-type: none"> Is the water tap opened up? / क्या पानी का नल खुला है? Is the water tap frozen? / क्या नल का पानी जम गया है?
No draining पानी नहीं निकलता	<ul style="list-style-type: none"> Is the drain hose laid down? / क्या निकास नली नीचे रखी हुई है? Is the drain hose twisted? / क्या निकास नली मुड़ी हुई है?

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

2. Do's :

- The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
- Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/un-repairable so as to prevent its accidental breakage.

Don't :

- The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
- The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwalah.
- The product is not meant for mixing into household waste stream.
- Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.

- Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
- "This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011".
- To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-315-9999 / 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. Merely as a facilitator.

For more detailed information , please visit : <http://www.lg.com/in>

☎ 9711709999 (LG WhatsApp No.)

अपने पुराने उपकरण का निपटान (ई-अपशिष्ट नियम के अनुसार)



1. जब इस काटे गये पहिये वाले बिन का चिह्न किसी उपकरण और इसके ओपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका मतलब है कि इसे ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। और इसे नवीनीकरण, विघटन और निपटान के लिए बनाया गया है।

2. करें :

- उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को ही निपटारण करने हेतु हस्तान्तरित करें।
- जब उपकरण कार्यरत न हो इसे अलग क्षेत्र में रखे ताकि उपकरण से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

ना करें :

- इस उपकरण को स्वयं/खुद नहीं खोलना चाहिए, उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
- इस उपकरण को पुनः बिक्री के लिए किसी भी कबाड़ीवाला / भंगार वाला / अनधिकृत संस्था को न दें।
- इस उपकरण को किसी घरेलू अपशिष्ट सामान के साथ मिलाकर न रखें।
- उपकरण के बदले हुए या आंतरिक पूर्जा को खुले क्षेत्र में न रखें।


- यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अन्तर्गत आता है।
- यह उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत 13(1) एवं (2) के तहत निविष्ट खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का पालन करता है।
- उपरोक्त पदार्थों के निपटारण के लिए नजदीकी निपटारण संस्थान (संकीर्ण क्षेत्र) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नम्बर 1800-315-9999 / 1800-180-9999 पर कॉल करें। सभी संग्रहण केन्द्र व पिक-अप की सुविधाएँ किसी थर्ड-पार्टी जो LG Electronics India Pvt. Ltd. को अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं, से करवाएँ।

अधिक जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : <http://www.lg.com/in>

☎ 9711709999 (LG WhatsApp No.)

TABLE "A"

Model	Wash Capacity* (kg)	Wash Time (Minutes)	Soak Time (Minutes)	Spin Time (Minutes)	Control Panel (Page -7)	Filter (Y/N)	Wheel (Y/N)	Guide for Washing (Page -16)	Water Level(L)	Dimensions (WxDxH) (mm)	Weight (net) (kg)
P1155S*	11.0	15	25	5	FIG-3	Y	Y	Table 2(C)	84	905x545x1025	32
P1145S*	11.0	15	25	5	FIG-3	Y	Y	Table 2(C)	84	905x545x1025	32
P1055S*	10.0	15	25	5	FIG-3	Y	Y	Table 2(C)	84	905x545x1025	32
P1050S*	10.0	15	25	5	FIG-3	Y	Y	Table 2(C)	84	905x545x1025	32
P1045S*	10.0	15	25	5	FIG-3	Y	Y	Table 2(C)	84	905x545x1025	32
P9545S*	9.5	15	25	5	FIG-3	Y	Y	Table 2(C)	84	905x545x1025	31
P9041S*	9.0	15	20	5	FIG-2	Y	Y	Table 2(C)	84	905x545x1025	31
P9040R*	9.0	15	-	5	FIG-1	Y	Y	Table 1(C)	84	905x545x1025	31
P8535S*	8.5	15	25	10	FIG-4	Y	Y	Table 2(B)	66	810x480x980	27
P8035S*	8.0	15	25	10	FIG-4	Y	Y	Table 2(B)	66	810x480x980	27
P7530S*	7.5	15	25	5	FIG-3	Y	Y	Table 2(B)	66	810x480x980	27
P7535S*	7.5	15	20	5	FIG-2	Y	Y	Table 2(B)	66	810x480x980	27
P7525S*	7.5	15	20	10	FIG-5	Y	Y	Table 2(B)	66	810x480x980	27
P7520N*	7.5	15	-	5	FIG-1	Y	Y	Table 1(B)	66	810x480x980	26
P7515S*	7.5	15	20	5	FIG-2	Y	Y	Table 2(A)	66	795x480x975	24
P7025S*	7.0	15	20	5	FIG-2	Y	Y	Table 2(B)	66	810x480x980	26
P7020N*	7.0	15	-	5	FIG-1	Y	N	Table 1(B)	66	810x480x980	26
P7015S*	7.0	15	20	10	FIG-5	Y	Y	Table 2(A)	60	795x480x975	24
P7010N*	7.0	15	-	5	FIG-1	Y	Y	Table 1(A)	60	795x480x975	24
P7010R*	7.0	15	-	5	FIG-1	Y	Y	Table 1(A)	60	795x480x975	24
P6510N*	6.5	15	-	5	FIG-1	Y	Y	Table 1(A)	60	795x480x975	24
P6001R*	6.0	15	-	5	FIG-1	Y	N	Table 1(D)	50	720x445x900	21



* Wash Capacity— Maximum amount of dry cotton cloths that can be washed.

* धुले की क्षमता – अधिकतम मात्रा में धुले जा सकने वाले सूखे सूती कपड़े ।

Note-Water Pressure Should be less than 100kPa (1kgf/cm2)

नोट-पानी का दबाव 100kPa(1kgf/cm2) से कम होना चाहिए।

REFERENCE / संदर्भ

WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES / कपड़ों के वजन के निर्देश

Type of clothing / कपड़े	Type of fabric / धागे की किस्म	Weight per piece / वजन प्रति नग
Under shirt / बगियान	Cotton / सूती	150 g / ग्राम
Handkerchief / रुमाल	Cotton / सूती	50 g / ग्राम
Bath towel / नहाने का तौलिया	Cotton / सूती	300 g / ग्राम
Shirt / शर्ट	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम
Socks (1 pair) / मोजे (1 जोड़ी)	Mixed fabric / मिश्रित	50 g / ग्राम
Pajama (shirt and pants) / पाजामा (शर्ट व पैंट)	Cotton / सूती	500 g / ग्राम
Winter undershirt / सर्दियों की बगियान	Woollen / ऊनी	600 g / ग्राम
Workclothes / मजदूरी काम के कपड़े	Mixed fabric / मिश्रित	800 g / ग्राम
Blouse / ब्लाउज	Mixed fabric / मिश्रित	200 g / ग्राम

TABLE 1. GUIDE FOR WASHING (WITHOUT SOAK) / धुलाई के निर्देश (सोक रहित)

Type of fabric कपड़े की किस्म	Wash Selector वॉश सेलेक्टर	Wash time वॉश टाइम (Minute) (मिनट)	Amount of laundry (kg) कपड़ों की मात्रा				Water level जल स्तर	Amount of water (L) पानी की मात्रा				Amount of detergent (g) डिटरजेंट की मात्रा			
			A	B	C	D		A	B	C	D	A	B	C	D
Woolen, Knits / ऊनी, बुनाई वाले	Gentle/जेंटिल	-5	0.5-1.2	0.5-1.5	0.5-2.0	0.5-2.0	H	60	66	84	50	60-70	65-70	70-85	50-55
Synthetics, Silk सिन्थेटिक, सिल्क	GENTLE जेंटिल	8-12 8-12	0.5-4.0	4.0-5.0	5.0-6.0	0.5-4.0	L	50	54	61	40	45-51	51-55	61-70	38-42
			4.0-4.6	5.0-6.5	6.0-7.0	4.0-4.6	M	55	60	73	45	54-58	56-60	70-75	44-48
			4.6-7.0	6.5-7.5	7.0-9.0	4.6-6.0	H	60	66	84	50	60-70	65-70	75-85	50-55
			-	-	4.0-5.0	-	S	-	-	51	-	-	-	55-60	-
Cotton, Linen etc. सूती चादरे आदि	NORMAL नॉर्मल	12-15 12-15	0.5-4.0	4.0-5.0	5.0-6.0	0.5-4.0	L	50	54	61	40	45-51	51-55	61-70	38-42
			4.0-4.6	5.0-6.5	6.0-7.0	4.0-4.6	M	55	60	73	45	54-58	56-60	70-75	44-48
			4.6-7.0	6.5-7.5	7.0-9.0	4.6-6.0	H	60	66	84	50	60-70	65-70	75-85	50-55
			-	-	4.0-5.0	-	S	-	-	51	-	-	-	55-60	-
Very soiled cotton and linen etc. बहुत गंदे सूती और चादरे आदि	STRONG स्ट्रॉंग	12-15 12-15	0.5-4.0	4.0-5.0	5.0-6.0	0.5-4.0	L	50	54	61	40	45-51	51-55	61-70	38-42
			4.0-4.6	5.0-6.5	6.0-7.0	4.0-4.6	M	55	60	73	45	54-58	56-60	70-75	44-48
			4.6-7.0	6.5-7.5	7.0-9.0	4.6-6.0	H	60	66	84	50	60-70	65-70	75-85	50-55
			-	-	4.0-5.0	-	S	-	-	51	-	-	-	55-60	-

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING (WITH SOAK) / धुलाई के निर्देश (सोक सहित)

Type of fabric कपड़े की किस्म	Wash Selector वॉश सेलेक्टर	Wash time वॉश टाइम (Minute) (मिनट)	Amount of laundry (kg) कपड़ों की मात्रा			Water level जल स्तर	Amount of water (L) पानी की मात्रा			Amount of detergent (g) डिटरजेंट की मात्रा		
			A	B	C		A	B	C	A	B	C
Woolen, Knits / ऊनी, बुनाई वाले	Gentle/जेंटिल	-5	0.5-1.2	0.5-1.5	0.5-2.0	H	60	66	84	0-70	5-70	70-85
Synthetics, Silk सिन्थेटिक, सिल्क	Soak-Gentle सोक-जेंटिल	15+15 15+15	0.5-4.0	4.0-5.0	5.0-6.0	L	50	54	61	45-51	55-60	61-70
			4.0-4.6	5.0-6.5	6.0-7.0	M	55	60	73	54-58	61-70	70-75
			4.6-7.0	6.5-8.0	7.0-11.0	H	60	66	84	60-70	70-75	75-95
Soiled/गंदे	Soak-Normal सोक-नॉर्मल	20+15 20+15	0.5-4.0	4.0-5.0	5.0-6.0	L	50	54	61	45-51	55-60	61-70
			4.0-4.6	5.0-6.5	6.0-7.0	M	55	60	73	54-58	61-70	70-75
			4.6-7.0	6.5-8.0	7.0-11.0	H	60	66	84	60-70	70-75	75-95
			-	-	4.0-5.0	S	-	-	51	-	-	55-60
Worst Condition/बिगड़ गंदे	Soak-Strong सोक-स्ट्रॉंग	20/25+15 20/25+15	0.5-4.0	4.0-5.0	5.0-6.0	L	50	54	61	45-51	55-60	61-70
			4.0-4.6	5.0-6.5	6.0-7.0	M	55	60	73	54-58	61-70	70-75
			4.6-7.0	6.5-8.0	7.0-11.0	H	60	66	84	60-70	70-75	75-95

Notes / टिप्पणी :

- Amount of laundry is a weight of dry laundry / कपड़ों की मात्रा का अर्थ सूखे कपड़ों के वजन से है।
- Detergent is a general synthetic detergent / डिटरजेंट कोई भी सामान्य सिन्थेटिक डिटरजेंट हो सकता है।


IMPORTANT INSTRUCTION : Fill water in wash tub to height 20 mm above the level you desire. when washing will start water level will automatically adjust to the level you desire.

महत्वपूर्ण निर्देश : वॉश टब को अपने जरूरत के पानी स्तर से 20 मिमी के ऊपर तक भर लें। जब वॉशिंग शुरू होगी तो पानी का स्तर अपने आप आपके जरूरत के स्तर तक आ जाएगा।


- Refer below instructions for wash / Rinse / Spin function.
- धुलाई / खंगालना / स्पिन फंक्शन के लिए नीचे दिये गये निर्देश का पालन करें।
- In models having Water Level Selection , the lever should be at "H" Level.
- जल स्तर चयन वाले मॉडल में लीवर "H" स्तर पर होना चाहिये।
- Water Filling to be done in wash tub till water start flowing from drain hose.
- टब में पानी ड्रेन होज से पानी बहने तक भरें।
- Do not select soak time during washing & rinsing function.
- धुलाई / खंगालने के दौरान सोक फंक्शन का चयन ना करें।
- Rinse to be done in washing tub only.
- खंगालने का कार्य वॉशिंग टब में ही करें।
- Input the detergent directly inside the wash tub input clothes.
- कपड़े डालने से पहले सीधे वॉश टब के अन्दर डिटरजेंट को डालें।

Function & Time Selection / फंक्शन और समय का चयन :

a) For model capacity : 8.5 kg or more / मॉडल क्षमता - 8.5 kg और उससे अधिक के लिए



b) For model capacity : 8.0 kg or Less / मॉडल क्षमता - 8.0 kg और उससे कम के लिए



Mode selection / मोड चयन :

Washing / Rinsing : Normal Mode for Model P1155S* / P1145S* and gentle mode for remaining models.

धुलाई/खंगालना : सामान्य मोड, मॉडल P1155S* / P1145S* के लिए और जेंटल मोड शेष मॉडल के लिए ।

* under test conditions, when tested in accordance with standard IEC 60456 : 2010 & BEE Schedule-12 (Revision : 03) Actual Performance of machine will depend on how the appliance is being used.

*परीक्षण स्थितियों के तहत, जब मानकों IEC 60456 : 2010 और BEE अनुसूची-12 (संशोधन : 03) के अनुसार परीक्षण किया जाता है। वास्तविक मशीन का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि उपकरण का उपयोग कैसे किया जा रहा है।

WARRANTY

The Washing Machine (hereinafter referred as product) comes with 2 year warranty on all parts (except Plastic parts, Consumables, Loose Plastic Parts, Filters, Knobs, Top covers, Inlet/outlet hose) and thereafter a 3 years additional warranty only on the wash motor from the date of purchases on producing the tax paid invoice of the product provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our authorized dealer.

3 YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON THE WASH MOTOR

The 3 Year warranty on the Wash Motor will continue even after the expiry of 2 year period from the date of purchase. This warranty covers Wash Motor only except for the models P6510N* & P6001R*. During the additional warranty period, it does not cover parts such as Controller Assembly, Timers, Spin motor, Tub assembly, etc. The standard visiting charges will be applicable within municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service Centre. Service Outside municipal limit will attract to and fro travelling, other incidental expense in addition to standard visiting charges, as per the prevailing from time to time. During the additional warranty period only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

COMMON TERMS & CONDITIONS APPLICABLE FOR WARRANTIES AS MENTIONED ABOVE

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Washing Machine only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out through the Authorized Service Centres of LG Electronics India Pvt Ltd. (hereinafter referred as LG or LGEIL). Customer may place their service call through the LG customer care or through the dealer from whom the product has been purchased. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact our helpline.
3. Repair under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized helplines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Centre, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service centre and bring the unit to the authorized service at its own cost and risk. All expense incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service centre, as well as expenses incurred with deputing of service personnel/technician toward conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service centre will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service centre.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service centre, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the units are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. LGEIL may use parts that are new or refurbished and equivalent to new in performance and reliability. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product/customer abuse/repairs by un-authorized personnel's/ misuse detected/ by the Authorized Service Centre personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect being noticed in the equipment during warranty period of the Washing Machine. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Centre reserves the right to retain any part/s or component replaced its discretion, in the event of defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer
13. In the event of any unforeseen circumstance, and spares not being available, the company's prevailing depreciation rules may apply on the purchaser to accept as a commercial solution in lieu of repairs.
14. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be chargeable basis except the component which actually needed.
15. Free Installation or Demo of the product, can be availed only once & within 3 months from the date of purchase.
16. Any extended warranty offered by LGEIL has to be supported by relevant proof.
17. Warranty shall expire after the warranty period as mentioned above even if the Washing Machine may not be in use for any time during the warranty period for any reason.
18. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.

19. Warranty is not applicable in any of the following cases where:

- a) The warranty card is not completed properly at the time of purchase.
- b) The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product.
- c) The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet/Owner's Manual.
- d) The product is used for commercial purposes.
- e) The product is used at any places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory etc.
- f) The product has failed under certain conditions like water logging , flood , fire , misuse etc.
- g) Defects/malfunction are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel.
- h) Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel.
- i) Defect/malfunction are caused which are beyond control like lightening, abnormal voltage, Acts of God,virus etc.
- j) Any issue is caused by usage of 3rd party product like voltage stabilizer, power outlet socket, MCB, extension board etc.
- k) Defects/malfunction caused while in transit to service centre or purchaser's residence.
- l) Defects caused by rodents bite or by pests and vermin ants/Insects/animals/birds etc.
- m) The serial number is deleted, defected or altered.
- n) Damage is caused to the product or any part/s due to transportation or shifting
- o) Any accessory external to the equipment are supplied by dealer or LG.

CUSTOMER'S DETAILS


MODEL No. :

SERIAL No. :

DATE OF PURCHASE :


CUSTOMER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____



DEALER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____



Customer's Signature

Dealer's Signature



MFL68505412

LG 24 x 7 CUSTOMER CARE

1800-315-9999
(Toll Free)

1800-180-9999
(Send SMS)

5757554
(Send SMS)

www.lg.com/in/support

LG WhatsApp No.
9711709999

LG Service India Mobile App
Available at Google Play

www.facebook.com/lgindiapage/

www.twitter.com/LGIndia

To know more about LG,
visit www.lg.com/m
For Corporate/Institutional enquiries,
please write to corp.enquiries@lge.com